### **Universus Photo Imagings Limited**

(Formerly known as JINDAL PHOTO IMAGING LIMITED)

CIN: L22222UP2011PLC103611

Corp. Off.: Plot No. 87, Sector-32, Institutional Area, Gurugram Haryana -122001.

Tel: 91-0124-6925100 Website: www.universusphotoimagings.com

### UPIL/DE-PT/SE/2025-26

To,
The Manager Listing
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai - 400 051

Scrip Code: NSE: UNIVPHOTO

To,

The Manager Listing

**BSE** Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Date: 09th September, 2025

Dalal Street,

Fort, Mumbai – 400 001

Scrip Code: BSE: 542933

# Sub: Newspaper Advertisement for dispatch of Notice of 14<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) and e-voting and Book Closure information.

Dear Sir,

Pursuant to Regulations 30 and 47 read along with Schedule III of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Regulation"), please find enclosed herewith a copy of advertisement published on September 08, 2025 in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) informing about completion of dispatch of Notice of the 14<sup>th</sup> Annual General Meeting, e-voting process and Book Closure related information.

This is for your information and records please.

Thanking you, Yours Sincerely, For Universus Photo Imagings Limited

Suresh Kumar Company Secretary

ACS: 41503 Encl: A/a MONDAY, SEPTEMBER 8, 2025



### DYNACONS SOLUTIONS THAT EMPOWER CIN: L72200MH1995PLC093130

 Ratnajyot Industrial Estate, Irla Lane, Vile Parle (West), Mumbai - 400056. Tel: 022-66889900,E-mail: investor@dynacons.com., Website: www.dynacons.com

NOTICE OF THE 30th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E VOTING Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting ("the AGM) of Dynacons Systems & Solutions Limited ("the Company") is scheduled to be held on Tuesday, September 30, 2025 at 3:00 P.M. through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) without physical presence of the Members in compliance with Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its circulars dated May 5, 2020, January 13, 2021, December 8, 2021, December 14, 2021, May 5, 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 read with the circular dated April 8, 2020, April 13, 2020 and December 28, 2022 (collectively referred as "MCA circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022, January 5, 2023 and October 7, 2023 (collectively referred to as "SEBI Circulars") issued by SEBI, and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and the rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulation"),to transact the Ordinary and Special businesses as set out in the notice dated September 03, 2025 of AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the aloresaid MCA Circulars and SEBI Circulars, electronic copies of the Annual Report for F.Y. 2024-2025 also containing Notice of the AGM has been dispatched by e-mail on Saturday, September 06, 2025, to all the Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). In compliance with Regulation 36(1)(b) of SEBI Listing Regulation, a letter is also being sent to those members whose email addresses are not registered, providing weblink where the Annual Report along with AGM notice for FY-2024-25 can be

Members who have not registered their email addresses may temporarily get themselves registered with Company's Registrar and Share Transfer Agent, Bigshare Services Pvt. Ltd. by clicking the link: into@bigshareonline.com for receiving the Annual Report for F.Y. 2024-2025 also containing Notice of the AGM.

In terms of provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act'), read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015) and the Regulation 44 of the SEB (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and as per Secretarial Standards-2, Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Tuesday, September 23, 2025, may cast their vote electronically on the Resolutions as set out in the said Notice of the AGM. A person, who is not a Member as on the Cut-off date should treat this Notice for information purpose only. All the members are informed that: All the Ordinary and Special Resolutions as set in the Notice dated September 03, 2025 may

be transacted through electronic means by e-voting. The date of completion of dispatch of Annual Report for F.Y. 2024-2025 also containing Notice

of the AGM by electronic mode: Saturday, September 06, 2025 The date and time of commencement of remote e-voting: Thursday, September 25, 2025 (9:00

The date and time of end of remote e-voting: Monday, September 29, 2025 (5:00 P.M. IST) The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or at the AGM: Tuesday,

September 23, 2025. . Those persons who have acquired shares and have become the members of the Company after the dispatch of the Notice of AGM and holding of shares as of cut - off date i.e. September 23. 2025, may obtain login id and password by sending a request www.evoting@nsdl.co.in.However,

if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. ii.The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and Members attending the AGM, who have not cast their vote by remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, will be able to vote through e-voting system during the AGM. Once the

vote on resolution is cast by member, shall not be allowed to change it subsequently ii.The manner of remote e-voting at the AGM by Members holding shares in dematerialized mode. physical mode and for member who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM

Information and instruction relating to e-voting have been provide din the AGM notice which have been sent to the members through e-mail. The login credential used for e-voting should be used for attending the AGM through VC/OAVM.

The voting rights of the members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on September 23, 2025, being cut-off date. Mr. Hemant Shetye, (FCS No.2827), Designated Partner of HSPN & Associates LLP, Practicing

Company Secretary, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting note that the Notice of the AGM and Annual Report for F.Y. 2024-2025 are available

on the Company's website at www.dynacons.com, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at <a href="https://www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a>. For evoting queries, contact NSDL at evoting@nsdl.com or refer to FAQs on www.evoting.nsdl.com. ii. Contact details of the person responsible to address the grievances connected with e-voting

National Securities Depository Limited (NSDL), Praiakta Pawle, Executive, 3" Floor, Naman Chamber

Plot C-32, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra - 400 051, Tel No. 022 - 48867000, Email id: evoting@nsdl.com v. Pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Registrar of members and share transfer books of the Company will remain closed from September 24, 2025 to September 30, 2025 (both days inclusive

for the purpose of ensuing Annual General Meeting v. Manner of registering mandate for receiving Dividend. Members are requested to register With their depository participant(s) with whom they maintain their demat accounts, if shares are

held in dematerialized mode by submitting the requisite documents and i With the Company/Bigshare Services Private Limited by emailing at investor@dynacons.com or investor@bigshareonline.com or info@bigshareonline.com, by submitting copy of signed request

> By order of the Board For Dynacons Systems & Solutions Limited Pooia Patwa

Place : Mumbai Date: 06/09/2025

letter and required documents.

## Company Secretary & Compliance Officer ACCURACY SHIPPING LIMITED

CIN: L52321GJ2008PLC055322 ASL HOUSE, SURVEY NO: 42, PLOT NO: 11 MEGHPAR BORICHI ANJAR - 370110 KACHCHH GUJARAT INDIA. E-mail: investors@aslindia.net.

NOTICE OF 17th ANNUAL GENERAL MEETING

# INFORMATION ON REMOTE E-VOTING AND OTHER INFORMATION

Notice is hereby given that the 17th Annual General Meeting (AGM) of the members of Accuracy Shipping Limited (the Company) will be held on Tuesday, September 30, 2025 at 05:00 P.M. IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), pursuant to and in compliance with General Circular no. 09/2024 dated September 19, 2024, subsequent circulars issued in this regard by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CFDPoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 issued by SEBI (hereinafter referred to as the Circulars) and all other applicable laws to transect the business that will set forth in the notice of AGM. In compliance with the aforesaid circulars, the Annual Report of the Company

for the financial year 2024-25 along with notice of AGM and other

reports/documents (AGM documents) were sent to members on Saturday, September 6, 2025 in electronic mode only, to those shareholders whose email addresses are registered with RTA MUFG Intime India Private Limited (MUFG) (Formerly known as Link Intime India Private Limited) or Company or made available to Depositories. The AGM documents are available on Company's website www.aslindia.net, on the websites of the Stock Exchange i.e. National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of MUFG https://instavote.linkintime.co.in. Members are requested to note that physical/hard copies of Annual Report will not be sent by the Company. Pursuant to Section 108 of the Companies Act 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2015, and Regulation 42 & 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (SEBI LODR, 2015), the Company is pleased to provide e-voting facility to members to cast their vote on all the resolutions set forth in the Notice of the 17th AGM. The members may cast their vote electronically through electronic voting system (remote e-voting) on MUFG Intime India

### Private Limited (MUFG). All the members further informed that:

 a. The ordinary and special business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by remote e-voting or e-voting system during the AGM.

 b. The remote e-voting period shall commence on Thursday, September 25, 2025, at 09:00 A.M. IST and will end on Monday, September 29, 2025, at 05:00 P.M. IST. The remote e-voting shall be disabled by MUFG thereafter. Once the vote on the resolution(s) is casted by the member he/she/it shall not be allowed to change it subsequently.

 The cut-off date (Record date) for determining the eligibility of members to vote by remote e-voting at the AGM is Friday, September 19, 2025.

 d. The manner of remote e-voting or e-voting during the AGM for Members holding shares in dematerialized mode and for Members who have not registered their e-mail addresses has been provided in the Notice convening the AGM. Instructions for attending the AGM through VC / OAVM are also provided in the Notice of the AGM.

e. The facility of e-voting shall also be made available during the AGM on Tuesday, September 30, 2025. Those members present at the AGM through VC/OAVM, who have not cast their vote by remote e-voting and are otherwise not debarred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system during the AGM on Tuesday, September 30, 2025 and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM, may attend the AGM but will not be entitled to cast their vote again.

Any person who acquires shares after the dispatch of the 17th AGM Notice and hold the shares as of the cut-off date i.e. Friday, September 19, 2025, shall be entitled to exercise his/her vote either electronically i.e. remote e-voting or e-voting system on the date of AGM by following the procedure

mentioned in the notice of AGM. Members who have not registered/updated their email address are requested to register/update their email address with Depository Participant(s) were they maintain their demat account.

 In case of shareholders/members have any quarry regarding login/e-voting they may send email to enotices@in.mpms.mufg.com or call on 022-49186000.

The Board of Directors have appointed Mr. Plyush Prajapati (Membership No. FCS12711 / CP. No. 18332), proprietor of M/s Piyush Prajapati & Associates, Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting (including remote -voting) process in a fair and transparent manner.

DIN: 02344536

Place: Anjar For Accuracy Shipping Limited Date: 06-09-2025 Vinay Tripathi (Managing Director)

# DIGJAM

### DIGIAM LIMITED CIN: L17123GJ2015PLC083569

Registered Office: Aerodrome Road, Jamnagar - 361 006, Gujarat, India. E-mail: cosec@digjam.co.in; Telephone: +91 (0288) 2712972-73 Website: www.digiam.co.in

### NOTICE TO THE SHAREHOLDER FOR 10TH ANNUAL GENERAL MEETING

The notice is hereby given that the 10th Annual General Meeting ("AGM") of Digjam Limited ("The Company") for the F.Y. 2024-2025 will be held on Tuesday, September 30, 2025, at 11.00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC"), / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the Businesses, as set out in the Notice of AGM. The venue of the meeting shall deem to be the egistered office of the Company.

In Compliance with all the applicable provisions of Companies Act, 2013 and rules made thereunder, Circular No. 14/2020 dated April 08,2020; Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020; Circular number 20/2020 dated May 5, 2020; Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and Circular 2/2022 dated May 5, 2022; followed by Circular No. 10/2022 and 11/2022 dated December 28, 2022; Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and 9/2024 dated September 19 2024 issued by Ministry of Corporate Affair ("MCA") [Collectively referred to as 'MCA Circulars" and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its Circular SEBI/HO/CFDICMD2/CIRIP/2022/62 dated May 13, 2022 followed by Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023, Circular No. SEBI/HO/CFD/CFDPoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 (collectively referred to as "SEBI Circulars"), the Notice of AGM along with Annual Report 2024-2025 is sent in electronic mode, on September 06, 2025, to Members whose email IDs were registered with the Company or the Depository Participant(s) The notice of AGM (including Annual Report) is also uploaded on the company's website at www.digiam.co.in and on the website of NSE at www.nseindia.com and BSE at www.bseindia.com and NSDL at https://www.evoting.nsdl.com/

Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the notice of AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the Purpose of reckoning the guorum under section 103 of Companies Act, 2013.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the Company is pleased to provide the facility to Members to exercise their right to vote by electronic means on resolutions proposed to be passed at the AGM. The Company has engaged NSDL for providing facility for voting through remote e-Voting, for participation in the AGM through VC/OAVM and e-Voting during the AGM. Following is the related information: a) Day, Date and time of commencement of [: Saturday, September 27, 2025 (09:00 a.m. IST

remote e-Voting b) Day, Date and time of end of Monday, September 29, 2025 (05:00 p.m. IST) remote e-Voting

Cut-off Date : Wednesday, September 24, 2025 Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of AGM Notice holds shares as on the Cut-off Date i.e., Wednesday 24 2025, should follow the instructions for e-Voting as mentioned in the AGM Notice.

e) The Members who will be attending the AGM through VC/OAVM and who have not cast their vote through remote e-Voting shall be able to exercise their voting rights through e-Voting system provided during the AGM.

Members, who have acquired shares after sending the Annual Report through electronic means and before the cut-off date, may obtain the USER ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or cosec@digjam.co.in . However, if a member is already registered with NSDL for remote e-voting, then the Member may use their existing USER ID. and Password and cast their vote.

g) The Members are requested to note that:

Remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting after 05:00 P.M. on Monday. September 29, 2025; and

 The Members who have already cast their vote through remote e-Voting may attend the AGM but shall NOT be entitled to cast their vote again.

Members will have an opportunity to cast their vote remotely or during the AGM on the businesses as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system. The manner of voting remotely or during the AGM for Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and who have not registered their email addresses has been provided in the Notice convening

n case of any queries, member may refer to FAQs for Member and e-voting user manual for member at the Download section of httpl://www.evoting.nsdll.com/, or email at evoting@nsdl.co.in or contact the company on email at cosec@digjam.co.in who will also address grievances connected with the voting by electronic means. Hardik Bharat Patel

Whole - Time Director

DIN: 00590663

Date: September 08, 2025

Place: Mumbai

# NVENTURE

### INVENTURE GROWTH AND SECURITIES LIMITED Registered Office: Viral Tower, 2nd Floor, Western Express Highway Andheri (East). Mumbai: 400069; CIN: L65990MH1995PLC089838

Email: investorgrievancies@inventuregrowth.com, Website: www.inventuregrowth.com Tel. No. 91-22-7114 8500, Fax No. 91-22-7114 8511

NOTICE OF THE 30" ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM"), REMOTE E-VOTING FACILITY AND CUT OFF DATE

Notice is hereby given that the 30" Annual General Meeting of the shareholders of Inventure Growth & Securities Limited (the "Company") will be held on Monday, 29th September, 2025 at 11:30 A.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the business as set forth in the Notice for the 30" AGM.

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its circular dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, January 13, 2021, December 08, 2021, December 14, 2021 May 05, 2022, December 28, 2022, September 25, 2023 and the latest being September 19, 2024 and such other related circulars issued from time to time (collectively referred to as "MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide circular dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022, January 05, 2023, October 07, 2023, October 03, 2024 and the latest circular November 11, 2024 (collectively referred to as "SEBI Circulars") permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM"/ "Meeting") through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of the Members (also referred to as "Shareholders") at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), MCA Circulars and SEBI Circulars (as amended from time to time

In compliance with the aforesaid Circulars and SEBI Circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022, January 05, 2023, October 07, 2023 and the latest circular October 03, 2024 the Company has sent the Notice of the AGM along with the Annual Report for the FY 2024-25 by email on 05" September, 2025, to all shareholders whose email addresses are registered with the Company / Depository Participants as on 03" September, 2025. Shareholders may note that the Notice of the AGM along with the Annual Report, instructions for remote e-voting and participation in the AGM through VC / OAVM are also made available on the website of the Company at www.inventuregrowth.com and websites of the stock exchanges i.e., www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Pursuant to Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with the Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, and the Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to all its members to cast their vote electronically on all resolutions as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system platform (remote e-Voting) provided by MUFG Intime India Private Limited (Formally Known as Link Intime India Private Limited). All the members

The cut-off date for determining the eligibility of Members to vote is 23"

2. Persons whose names are recorded in the register of members/ beneficial owners as on the cut-off date shall be entitled to vote using the remote e-voting facility or at the AGM;

3. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of the Notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date, 23" September, 2025, may obtain the login ID and password by sending a request at enotices@in.mpms.mufg.com However, if such shareholder is already registered with LIIPL for remote e-Voting, then the existing User ID and Password can be used for casting the vote.

 The remote e-voting shall remain open for a period of 4 days commencing from 25th September, 2025, 09.00 A.M to 28th September, 2025, 5.00 P.M (both days inclusive);

E-voting shall not be allowed beyond 05:00 P.M. on 28" September, 2025. The remote e-voting module will be disabled by MUFG Intime India Private Limited(Formally Known as Link Intime India Private Limited) after 05:00 P.M. IST on 28" September, 2025 and once the vote on the resolution is cast by a member, he/she shall not be allowed to change it subsequently;

Only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.

. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again;

The Company has appointed Mr. Dharmesh Zaveri, Practicing Company

Secretaries, Mumbai as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process and voting at the AGM in a fair and transparent manner; Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM or view the live webcast of the same provided by LIIPL at https://instameet.linkintime.co.in.

In case Members have any queries regarding remote e-Voting / e-Voting during the AGM, they may address the same to enotices@in.mpms.mufg.com or Call +91 (022)49186000.

Place : Mumbai

Date: 06" September, 2025

For Inventure Growth & Securities Limited Kanji Bachubhai Rita

Chairman & Managing Director

ARAPL

AFFORDABLE ROBOTIC & AUTOMATION LIMITED Reg. Off.: Village Wadki, Gat No.1209, Taluka Haveli, Dist. Pune - 412308

Corporate Identity Number (CIN): L29299PN2010PLC135298 Ph: +91 77 2001 8914, Email: account@arapt.co.in Web; www.arapt.co.ir

### NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Sixteenth Annual General Meeting of the Members of Affordable Robotic & Automation Limited ("the Company") will be held on Monday, September 29, 2025 at 11.00 am at Village Wadki, Gat No. 1209, Taluka Haveli, Dist. Pune -412308, to transact the business as set out in the Notice of AGM. The Company has sent the AGM Notice along with the Annual Report for the financial year ended on March 31, 2025 on Saturday, September 06 2025 through electronic mode only to those members whose e-mail address are registered with the Company and/or Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars for General Meetings and SEBI Circulars for General Meetings. Any member, who wishes to obtain hard copy of Annual Report, may write to the Company for the same. The dispatch of Notice of AGM along with Annual Report through email has been completed on September 06, 2025. These documents are also available on the Company's website at www.arapl.co.in and on the websites of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. In compliance with provisions of section 108 of the Act read with rules made thereunder, as

amended from time to time and Regulation44 of the SEBI (LODR) Regulation, 2015, the company is providing e-voting facility to members to cast their votes. All members are

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 23" September 2025 to 29th September 2025 (both days inclusive) for the purpose of

A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself, and such proxy need not be a member of the Company

The Notice of AGM and Annual Report are also available on the Company's website at: www.arapl.co.in and on the websites of BSE Limited and National Stock Exchange of India

The remote e-voting shall commence on September 26, 2025 at 09.00 AM (IST) and will end

on September 28, 2025 at 5.00 PM (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond Once the e-vote on the resolution is cast by the members, they shall not be allowed to change

The facility for voting during AGM is made available for the members who have not cast their

vote by remote e-voting; The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM but shall

not be entitled to cast their vote again and; The person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial

owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as during AGM. The members who have not registered their e-mail address with the company or Depository are requested to register it by following the procedure as mentioned in the Notice of AGM. The manner of remote e-voting and e-voting during AGM for the members who hold shares in

Company/Depository Participant are provided in the Notice of AGM

physical mode or demat mode or those who have not registered their e-mail addresses with the

Date : 06.09.2025 Place: Pune

By Order of the Board of Director For Affordable Robotic & Automation Line Ruchika Shinde - Company Sec



Regd. Off.: 19" K.M., Hapur-Bulandshahr Road, P.O. Gulaothi, Distt. Bulandshahr, U.P.- 245408 Corp. Off.: Plot Number - 87, Sector 32, Institutional Area, Gurugram, Haryana - 122001 Phone: 0124-6925100 Email: cs\_jpoly@jindalgroup.com, Website: www.jindalpoly.com

NOTICE OF 51" ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

lotice is hereby given that 51" Annual General Meeting (AGM) of JINDAL POLY FILMS LIMITED will be held on Tuesday, September 30, 2025 at 1:00 p.m. at Hotel Natraj, Kala Aam, Delhi Road, Civil Lines, Bulandshahr, Uttar Pradesh 203001, to transact the ordinary

and special businesses as set out in the Notice of the AGM, in compliance with the applicable provisions of Companies Act 2013, and rules framed thereunder ("Act"). Pursuant to provision of section 101 and 136 of the Act and rules made thereunder Regulation 36 of SEBI Listing Regulations, Notice of the AGM along with the Annual Report 2024-25 is being sent by e-mail on September 08, 2025 through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories. A

letter providing the web-link for accessing the Notice of AGM and Annual Report, including

the exact path, has been sent to those members who have not registered their email

address with the Company/Depositories. Members may note that the Notice of the AGM along with Annual Report 2024-25 will also be available on the Company's website <a href="https://www.jindalpoly.com/download-reports">https://www.jindalpoly.com/download-reports</a> websites of the Stock Exchanges, i.e., The BSE Limited at www.bseindia.com and The National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com respectively, and on the website of Company's Registrar and Transfer Agent, KFin Technologies Limited ("KFinTech") at https://evoting.kfintech.com/

Members who have not registered their email address are requested to register the same in respect of shares held in electronic form with the Depository through their depository participants and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's Registrar and Transfer Agent, KFin Technologies Limited ("KFin Tech") Selenium Tower B Plot Nos. 31 & 32 Financial District, Nanakramguda Senlingampally Mandal Hyderabad

As per section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies

(Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Secretarial Standards-2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, the company is providing to its shareholders the facility to cast their votes through remote e-voting and voting at Venue of the AGM on the all the resolutions set forth in the Notice, the detailed procedure of which is provided in Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the said

cut-off date i.e., Tuesday 23" September, 2025, may cast their vote electronically, in respect of the Resolution(s) as set out in the Notice of the AGM through the remote evoting or voting through ballot/polling paper during the AGM. The remote e-voting facility shall commence from Saturday, 27" September 2025 (9:00

A.M.) to Monday, 29" September 2025 (5:00 P.M.) and the same shall be forthwith disabled by KFIN after expiry of the said period. Once the Member have cast their vote through remote e-voting, he/she will not be allowed to modify his/her vote subsequently Members may attend the AGM even after casting their vote by remote e-voting facility but shall not be entitled to cast their vote again during the AGM. Those Members, who are present in the AGM and have not cast their vote through remote

e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to avail the facility of voting through ballot/polling paper during the AGM. In case a person has become member of the company after dispatch of the AGM notice bu

on or before the cut-off date for E-voting i.e. Tuesday, September 23, 2025, such members may obtain the user ID and Password by sending a request in such a manner as provided in instructions part of the Notice. All the documents referred to in this Notice and the Explanatory Statement setting out the material facts thereof and the Statutory Registers, will be made available for inspection by

the Company and as such the Members are requested to send an email to cs\_jpoly@jindalgroup.com requesting for relevant documents. In case of any query and/ or assistance required, Members may refer to the Help & Frequently Asked Questions ("FAQs") available at the download section of https://evoting.kfintech.com or contact KFin at the email ID evoting@kfintech.com or call

KFin's toll free No.: 1800 309 4001 for any further clarifications/ technical assistance that

may be required. All the members are requested to kindly get their shares dematerialized. ISIN of the company is INE197D01010 The company has appointed Mr. Deepak Kukreja (FCS-4140), Practicing Company Secretary (CP No. 8265) and in case of failing him Mrs. Monika Kohli (FCS 5480) Practicing Company Secretary (CP No. 4936), both being Partners of M/s DMK Associates, Company Secretaries, New Delhi, as the Scrutinizer to conduct the voting

process in a fair and transparent manner in the Annual General Meeting of the Company.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will be closed from Wednesday, 24th September 2025 to Tuesday, 30th September 2025 (both days inclusive) in connection with the ensuing AGM and the cut-off date i.e. 23rd September 2025 shall be considered as relevant date for the purpose of ascertaining the shareholders entitles to receive dividend for the Financial Year ended March 31, 2025, if approved by shareholders. By order of the Board of Directors

Jindal Poly Films Limited

Date: 07" September 2025 Place: Gurugram

Company secretary ACS: 14223

Ashok Yadav

**Transport Corporation of India Ltd.** CIN: L70109TG1995PLC019116

Regd. Office: Flat Nos. 306 & 307, 1-8-271 to 273, 3rd Floor, Ashoka Bhoopal Chambers, S. P. Road, Hyderabad - 500 003 (Telangana) Corp. Office: TCI House, 69 Institutional Area, Sector-32, Gurugram -122 001, Haryana Tel: +91 124 2381603-06

E-mail: secretarial@tcil.com, Website: www.tcil.com

NOTICE FOR ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

100 DAYS CAMPAIGN - "SAKSHAM NIVESHAK" - FOR KYC AND OTHER RELATED UPDATIONS AND SHAREHOLDER ENGAGEMENT TO PREVENT TRANSFER OF UNPAID **UNCLAIMED DIVIDENDS TO IEPF** The Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA), Ministry of Corporate Affairs

through its circular dated July 16, 2025, has launched a 100-day special campaign titled "Saksham Niveshak", being conducted from July 28, 2025 to November 06, 2025. The objective of this initiative is to facilitate shareholders in claiming their unclaimed/unpaid dividends and in updating their KYC and nomination details. It has been noted that a significant number of dividends remain unclaimed primarily due to

non-updation of KYC particulars. Accordingly, concerned shareholders are requested to take the following actions at the earliest: 1. Shares held in Demat form: Contact your Depository Participant (DP) for updation of KYC and nomination details

2. Shares held in Physical form: Submit duly completed formats together with the required supporting documents (as mandated by SEBI) to the RTA for updation of KYC, bank account, contact details and nomination.

Please also take note that w.e.f. April 1, 2024, dividend to the security holders holding shares in physical mode shall be paid only through electronic mode. Such payment to the eligible shareholders holding physical shares shall be made only after they have furnished their PAN, Contact Details (Postal Address with PIN, email ID and Mobile Number) Bank Account Details and Specimen Signature for their corresponding physical folios to the Company or the RTA of the Company.

Further, your kind attention is drawn to the SEBI Circulars issued time to time on the norms/ procedural requirements for processing service requests of investors specified by the SEBI to mandatorily update the PAN, KYC (including contact details viz. Email address / Mobile no.), Nomination details, Bank Account details and Specimen Signature of all Shareholders holding shares in physical form and compulsory linking of PAN with Aadhar number by all Shareholders. Therefore, Shareholders who have yet not updated the above said information / KYC details are requested to download the necessary Forms from the website of the Company i.e. https://tcil.

com/investor-information/ **OR** website of the RTA i.e. https://ris.kfintech.com and submit the

same duly completed in all respect to our RTA at the following address: KFin Technologies Ltd. (Unit: Transport Corporation of India Limited) Selenium Building, Tower B, Plot No 31 & 32, Financial District,

Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad-500032

Place: Gurugram

Date: September 06, 2025

(Sunil Kumar) Compliance Officer (A-38859)

For Transport Corporation of India Limited

UNIVERSUS PHOTO IMAGINGS LIMITED

CIN: L22222UP2011PLC103611

Website: www.universusphotoimagings.com

Regd. Office: 19th KM, Hapur, Bulandshahr Road, PO Gulaothi Bulandshahr, Uttar Pradesh - 245408, IN Corporate Office: Plot No 87, Institutional Area, Sector-32, Gurugram, Haryana - 122001 Tel: 0124-6925100, Email: cs\_uphoto@universusphotoimagings.com ,

> NOTICE OF 14" ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that 14" Annual General Meeting of Universus Photo Imagings Limited will be held on Tuesday, September 30, 2025 at 11:30 a.m. at Hotel Natraj, Kala Aam, Delhi Road, Civil Lines, Bulandshahr, Uttar Pradesh 203001, to transact the ordinary and special businesses as set out in the Notice of the 14th AGM, in compliance with the applicable provisions of Companies Act 2013, and rules framed thereunder ("Act").

Pursuant to provision of section 101 and 136 of the Act and rules made thereunder

Regulation 36 of SEBI Listing Regulations, Notice of the AGM along with the Annual Report

2024-25 is being sent by e-mail on September 08, 2025 through electronic mode to those

Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories. A letter providing the web-link for accessing the Notice of AGM and Annual Report, including the exact path, has been sent to those members who have not registered their email address with the Company/Depositories. Members may note that the Notice of the 14" AGM along with Annual Report 2024-25 will also be available on the Company's website https://www.universusphotoimagings.com nvestors.html, websites of the Stock Exchanges, i.e., Bombay Stock Exchange of India

Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com respectively, and on the website of Company's Registrar and Transfer Agent, KFin Technologies Limited ("KFinTech") at https://evoting.kfintech.com/ Members who have not registered their email address are requested to register the same in respect of shares held in electronic form with the Depository through their depository participants and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's

Registrar and Transfer Agent, KFin Technologies Limited ("KFinTech") Selenium Tower B.

Plot Nos. 31 & 32 Financial District, Nanakramguda Serilingampally Mandal Hyderabad.

As per section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Regulation 44 of the SEBI LODR) Regulations, 2015 and Secretarial Standards-2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, the company is providing to its shareholders the facility to cast their votes through remote e-voting and voting at Venue of the AGM on he all the resolutions set forth in the Notice, the detailed procedure of which is provided in

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the said cut-off date i.e., Tuesday 23rd September, 2025, may cast their vote electronically, in espect of the Resolution(s) as set out in the Notice of the AGM through the remote evoting or voting through ballot/polling paper during the AGM.

the instruction part of the Notice.

instructions part of the Notice.

Place: Gurugram

Date: 07" September 2025

2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies", e-Voting process has been enabled to all the Individual demat account holders, by way of single login Credential through their demat accounts / websites of Depositories/ DPs In order to increase the efficiency of the voting process, the detailed procedure of the same is being provided in the nstruction part of the Notice of the AGM. he remote e-voting facility shall commence from Saturday, 27" September 2025 (9:00

n pursuant to SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9

KFIN after expiry of the said period. Once the Member have cast their vote through remote e-voting, he/she will not be allowed to modify his vote subsequently. Members may attend the AGM even after casting their vote by remote e-voting facility but shall not be entitled to Those Members, who are present in the AGM and have not cast their vote through remote

e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to avail the facility of

A.M.) to Monday, 29" September 2025 (5:00 P.M.), same shall be forthwith disabled by

voting through ballot/polling paper during the AGM. case a person has become member of the company after dispatch of the AGM notice but on or before the cut-off date for E-voting i.e. Tuesday, September 23, 2025, such members may obtain the user ID and Password by sending a request in such a manner as provided in

All the documents referred to in this Notice and the Explanatory Statement setting out the material facts thereof and the Statutory Registers, will be made available for inspection by the Company and as such the Members are requested to send an email to cs\_uphoto@universusphotoimagings.com\_requesting for relevant documents.

n case of any query/grievance relating to remote e-voting or voting through Ballot/polling paper at the 14th AGM, Members may refer to the help & Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting user manual available at the downloaded section of https://e-voting kfintech.com (KFintech website) or contact D Suresh Babu, Senior Manager, KFin Technologies Private limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal Hyderabad 500-032 or send an email to einward.ris@kfintech.com.or.call.on1800 3094 001.

ISIN of the company is INE03V001013. All the members are requested to kindly get their shares dematerialized. The company has appointed Mr. Deepak Kukreja (FCS-4140), Practicing Company

Secretary (CP No. 8265) and in case of failing him Mrs. Monika Kohli (FCS 5480). Practicing Company Secretary (CP No. 4936), both being Partners of M/s DMK Associates, Company Secretaries, New Delhi, as the Scrutinizer to conduct the voting process in a fair and transparent manner in the Annual General Meeting of the Company.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will be closed from Tuesday, 23rd September 2025 to Tuesday, 30th September 2025 (both days inclusive) in connection with the ensuing Annual General Meeting.

By order of the Board of Directors For Universus Photo Imagings Limited

Suresh Kumar Company Secretary and Compliance Officer ACS: 41503



# THE LATEST TRENDS IN BUSINESS THE LATEST

New Delhi

TRENDSIN TRENDS

♦ FINANCIAL EXPRESS

epaper.financialexpress.com

# 🗥 🖎 odern मॉडर्न डेनिम लिमिटेड

**पंजीकृत कार्यालय :** तलहेटी, ग्राम कारोली, तहसील- आबु रोड, जिला- सिरोही-307510 फोन: 02974-228044. CIN:-L17124RJ1977PLC001758 ईमेल: denim.modern@gmail.com. वेबसाईट: www.moderndenim.com

## वार्षिक साधारण सभा, ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की सूचना

तदट्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की **४७वीं वार्षिक साधारण सभा मंगलवार दिनांक** 30 सितम्बर, 2025 को दोपहर 1.00 बजे पंजीकृत कार्यालय तलहेटी, ग्राम कारोली, तहसील- आयु रोड, जिला-सिरोही-307510 में आयोजित की जायेगी जिसमें 47वीं एजीएम की सूचना में निर्देशित विषयों को निष्पादित किया

एमसीए परिपत्रों के अनुरूप एजीएम की सूचना के साथ **31 मार्च, 2025** को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन उन सभी सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज दिया गया है जिन्होंने कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट/ रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत की है। कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन जिसमें एजीएम के आयोजन और ई-चोटिंग निर्देशों की सूचना कंपनी की बेबेसाइट www.moderndenim.com पर उपलब्ध है तथा बीएसई लिमिटेड की बेबसाइट www.bseindia.com और सीडीएसएल की बेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन **८ सितम्बर, २०२५** को ईमेल के माध्यम से भेज दी है।

एतद्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 (1) के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 10 और सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण की आवश्यकता) विनियम 2015 के नियमन 42, के प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तके **२३ सितम्बर, २०२५ से ३० सितम्बर, २०२५** (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

कम्पनी अधिनियम २०१३ की धारा १०८ के साथ पठित, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम २०१४ के नियम २० और सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण की आवश्यकता) विनिमय 2015 के नियमन 44 के प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी के सभी प्रस्ताव जो वार्षिक साधारण सभा के नोटिस में उल्लिखित हैं पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से | मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा अपने सदस्यों को उपलब्ध कराई गई है। सदस्य सभा के आयोजन स्थल के अलावा किसी अन्य जगह से इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) का उपयोग करते हुए अपना बोट डाल सकते हैं। रिमोट ई-बोटिंग की सर्विधा प्रदान करने के लिए कम्पनी ने सेन्टल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मतपत्रों के माध्यम से वार्षिक साधारण सभा में मतदान करने की सुविधा उसी को दी जायेगी जिन्होंने रिमोट ई-योटिंग के माध्यम से वोट नहीं दिया है। रिमोट ई-वोटिंग का समय 27 सितम्बर, 2025 को प्रातः 9 बजे से शुरू होकर 29 सितम्बर, 2025 को शाम **5.00 बजे** समाप्त हो जायेगा। रिमोट ई-वोटिंग मॉडयूल **29 सितम्बर, 2025 को शाम 5.00** के बाद ई-मतदान के लेए निष्क्रिय कर दिया जायेगा

सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के बाद भी वार्षिक साधारण सभा में भाग ले सकता है, लेकिन बैठक में फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कम्पनी ने सदस्यों के पंजीकृत ईमेल पते पर यूजर आईडी और ई-वोटिंग के लिए पासवर्ड भेज दिया है। जिस किसी सदस्य ने ईमेल आईडी RTA / कम्पनी को प्रदान नहीं की है। और अन्य कोई व्यक्ति, जो वार्षिक साधारण सभा की मुचना के प्रेषण के बाद सदस्य बनता है और cut-off-date. जो की **23 सितम्बर, 2025** है को अंश रखता है, एजीएमें के नोटिस में बताई गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं, और रिमोट ई-बोटिंग द्वारा मतदान के अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति पहले से ही ई वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है, तो मीजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है।

रिमोट ई- वोटिंग सुविधा से संबन्धित किसी भी प्रश्न/ शिकायत के लिए सदस्य www.evotingindia.com पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नो (एफएक्यू) का उल्लेख कर सकते हैं या दिव्यांशु दुवे आर्थिकृत व्यक्ति को मॉडर्न डेनिम लिमिटेड, तलहेटी, ग्राम कारोली, तहसील- आबू रोड, ज़िला- सिरोही-307510 ईमेल denim.modern@gmail.com फोन: 02974-228044 में सम्पर्क कर सकते हैं। बोर्ड के आदेश से

1 श्री सुमित पांडे पुत्र स्वर्गीय सुरेंद्र (स्वर्गीय सुरेंद्र के उत्तराधिकारी), निवासी—न्यू.

श्री सुमित पांडे पुत्र स्वर्गीय सुरेंद्र (स्वर्गीय सुरेंद्र के उत्तराधिकारी), प्लॉट नंबर 8.

गांव, कंचनपुर मटियारी, वार्ब-शहीद भगत सिंह, परगना, तहसील और जिला

समस्त उत्तराधिकारी स्वर्गीय सुरेंद्र द्वारा श्री सुमित पांडे पुत्र स्वर्गीय सुरेंद्र, न्यू

समस्त उत्तराधिकारी स्वर्गीय सुरेंद्र द्वारा श्री सुमित पांडे पुत्र स्वर्गीय सुरेंद्र, प्लॉट

नंबर ८, गांव, कंचनपुर मटियारी, वार्ड-शहीद भगत सिंह, परगना, तहसील जिला

श्री रत्नाकर मिश्रा पुत्र वेद कुमार मिश्रा (जमानतकर्ता ) स्ट्रगल लाइफ सॉल्युशन

श्री रत्नाकर मिश्र पुत्र वेद कुमार मिश्र (जमानतकर्ता ), मकान नं.21, जगदीश पुरम

प्राइवेट लिमिटेड, 3177-डी, इंदिरा नगर, लखनऊ-226016)

विहार तकरोही, लखनऊ-16, मो0- 983914701

पंचवटी कॉलोनी, वार्ड-शहीद भगत सिंह, कामता, चिनहट, लखनऊ-226028

पंचवटी कॉलोनी, वार्ड-शहीद भगत सिंह, कामता, चिनहट, लखनऊ-226028

स्थानः आबू रोड दिनांक: 08.09.2025

उघारकर्ता / खाता सं0 /

लखनऊ पिन-226028

इसके अलावा

दिनांक 04.09.2025

स्थानः लखनक

\*सांकेतिक कब्जा

सं0 जमानतकर्ता का नाम

श्री दीपक जैन

मॉर्डर्न डेनिम लिमिटेड के लिए हस्ता/-

रिप्य बॉम्बे मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बेंक लिमिटेड

कब्जा नोटिस (नियम 8(1)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, जोकि **बॉम्बे मर्कन्टाइल को—आपरेटिव बैंक लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी है, **द्वारा वित्तीय अस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पूर्नगठन तथा प्रतिभृति** 

हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (12) संपठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (2002 की सं0 54) के नियम 3 के अधीन प्रवत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे दिये

गये विवरण के अनुसार ऋणियों को मांग नोटिस जारी किया गया था. जिसके अनुसार मांग नोटिस की तिथि से 80 दिनों के भीतर नोटिस में वार्णित धनुराशि का मगतान बैंक

को करने की सूचना ऋणियों / जमानतकर्ता को दी गई थी। ऋणियों द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के

नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप धारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा ऋणियों / उधारकर्ता और आम लोगों को यह नोटिस

दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा नीचे दी गई सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया गया है। बंधककर्ताओं का ध्यान प्रतिमृत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में

अधिनियम की उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया जाता है। ऋणियों / जमानतकर्ताओं धारा 13 की उपधारा (8) के उपबन्धों की ओर से आकृष्ट किया जाता है। ऋणियों के

विशेष रूप से व जन साधारण को सामान्य रूप से एतदद्वारा विषयगत सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का संव्यवहार न करने के लिए सावधान किया जाता है और इ**स** 

**सम्बन्ध में किया गया कोई भी संव्यवहार बॉम्बे मर्कन्टाइल को—आपरेटिव बैंक लिमिटेड** के अघोवाणित प्रभारों व देय ब्याज / खर्चों के अधीन होगा।

18, कैसरबाग, लखनंऊ-226001,फोन०-708604777(शेड्यूलॉर्के)

Email:nagendra.malviya@bmcbank.co.in, Visit us at : www.bmcbankltd.com

प्रमारित / बंधक की गई परिसम्पत्ति

(परिसम्पत्ति से संबंधित सभी भाग व

सभी भाग एवं हिस्सों सहित सम्पत्ति प्लॉट

संख्या–८, मिनजुमला खसरा संख्या ५७५

क्षेत्रफल 92.936 वर्ग मीटर स्थित ग्राम

कंचनपुर, मटियारी, वार्ड- शहीद भगत सिंह,

लखनऊ जोकि दिनांक 07:10.2016 को बही

संख्या--1, जिल्द संख्या--12119, पृष्ट

संख्या-389 से 422, क्रम संख्या-5992 पर

उपनिबन्धक तृतीय, लखनऊ में स्वर्गीय

सुरेन्द्र पुत्र श्री आध्या के नाम पंजीकरण है।

**चौहददी-पूर्व-** प्लॉट संख्या-०९, **पश्चिम-**

प्लॉट संख्या–07, **उत्तर**– 20 फीट **चौडी** रोड,

दक्षिण-अन्य की भूमि (आराजी दीगर)

एवं हिस्सों सहित) विवरणी

## प्रोग्रेसिव फिनलीज लिमिटेड

CIN: L65910DL1995PLC064310 पंजी कार्या::500, 5वी मंजिल, आईटीएल ट्विन टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली, भारत, 110034

ईमेलः info@progressivefinlease.in, वेबसाइटः www.progressivefinlease.in 31वी एजीएम, ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की सूचना

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि प्रोग्रेसिव फिनलीज़ लिमिटेड के सदस्यों की 31वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को दोपहर 02:00 बजे (आईएसटी) 500, 5वीं मंजिल, आईटीएल ट्विन टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, उत्तर दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110034 में एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी। कंपनी ने 31वीं एजीएम की सचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2024-2025 केवल उन सदस्यों को इलेक्टॉनिक मोड के माध्यम से भेजी है जिनके ईमेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट और डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। एजीएम की सुचना की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को एमसीए परिपत्नों और सेबी परिपत्नों के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट 2024-2025, जिसमें अन्य बातों के अलावे 31वीं एजीएम की सूचना और व्याख्यात्मक विवरण शामिल है, कंपनी की वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों जैसे www.msel.com पर उपलब्ध है। इसकी एक प्रति नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। रिमोट ई-वोटिंग

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ पठित प्रासंगिक नियमों और अन्य लागु प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी एजीएम में निपटाए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में एनएसडीएल के माध्यम से एजीएम से पहले और एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है, जिसके विस्तृत निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। रिमोट ई-वोटिंग 27 सितंबर 2025 को सुबह 09:00 बजे शुरू होगी और 29 सितंबर 2025 को शाम 05:00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद, नएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को वोटिंग के लिए अक्षम कर दिया जाएगा और सदस्यों को उक्त तिथि और समय के बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सदस्यों के मतदान का अधिकार 23 सितंबर 2025 (कट-ऑफ तिथि) को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे। कोई भी व्यक्ति जो सूचना के प्रेषण के बाद शेयर प्राप्त करता है और सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर रिमोट ई-वोटिंग के लिए लॉगिन-आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है या एनएसडीएल द्वारा प्रदान किए गए टोल फ्री नंबर 1800-222-990 पर संपर्क कर

रतदद्वारा पुनः सुचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 91 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, 31वीं एजीएम के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स 24 सितंबर, 2025 से 30 सितंबर, 2025 (दोनों दिन मिलाकर) तक बंद रहेंगे।

जिन सदस्यों (भौतिक और डीमैट धारकों) ने अभी तक अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, उनसे अनरोध है कि वे एजीएम की सचना और वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 इलेक्टॉनिक रूप से प्राप्त करने और रिमोट ई-वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए 23 सितंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) तक या उससे पहले ईमेल पते और पैन की स्कैन की गई प्रति के साथ info@progressivefinlease.in पर कंपनी को अनुरोध भेजें।

निदेशक मंडल के आदेश से प्रोग्रेसिव फिनलीज लिमिटेड के लिए राजीव जैन

अ)मांग नोटिस की तिथि

(स) बकाया शेष

मांग नोटिस की तिथि

28.11.2022

04.09.2025

₹. 25,00,984.00

ब्याज दिनांक 27.11.2022

तक से प्रभावी एवं

अन्य खर्च

(नार्गेद्र कुमार मालवीय)

प्राधिकृत अधिकारी

वॉम्बे मर्कन्टाइल को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

(ब)सांकेतिक कब्जा की तिथि

दिनांक: 06.09.2025 डीआईएन: 03438127 स्थानः दिल्ली

स्थानः फरीदाबाद

विधिः ८ सितम्बर, 2025

पंजीकृत कार्यालय पत्नैट लंख्या 466, बीधी मंजिल, पद्मा टावर-2, प्लॉट लंख्या 22, राजेंड प्लेस, पटेल नगर, मध्य दिल्ली, नई दिल्ली-110008 निगम कार्यालयः यूनिट संख्या 1101-1119, 11वीं मंजिल, एमअएम कॉस्मोपॉलिटन, गोल्फ कोर्स एक्सटेशन रोड. सेक्टर 66. हीएलएक क्यूई, गुह्नमंत् हरियागा—122002 सीआईएन: U72900DL2019PLC354599, वेबसाइट: www.finkeda.com, ईमेल: ca@finkeda.com, फोन नंबर 91—9652551250

जीकेएन ड्राइवलाइन (इंडिया) लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: प्लॉट नं. 270, सैक्टर-24, फरीदाबाद, हरियाणा-121005

फोन: +91(129) 6621300, ई-मेल: gdi.stakeholder@gknautomotive.com

(कंपनी के सभी इविवटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ सार्वजनिक सूचना)

100 दिवसीय अभियान - "सक्षम निवेशक" - केवाईसी और अन्य संबंधित अद्यतनीकरण

तथा शेयरधारक सहमागिता हेत्, ताकि अवैतनिक / अदावाकृत लामांशों को निवेशक

शिक्षा एवं संरक्षण कोष ("आईईपीएफ") में स्थानांतरित रोकने हेत्

जीकेएन ड्राइवलाइन (इंडिया) लिमिटेड (''आपकी कंपनी'') के शेयरधारकों को सुवित किया

जाता है कि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण ("आइईपीएफ") कॉर्पोरेट मामलों के

मंत्रालय (''एमसीए'') के दिनांक 16 जुलाई 2025 के पत्र के अनुसरण में, आपकी कंपनी ने 28

जुलाई, 2025 से 6 नवंबर, 2025 तक 100 दिवसीय अभियान "सक्षम निवेशक" शुरू किया है।

इस अभियान के दौरान, सभी शेयरधारक यदि आपने अपने-लामांश का दावा नहीं किया है या

अपने केवाइसी और नामांकन विवरण अपडेट नहीं किए हैं या दावा न किए गए लामांश और

शेयरों से संबंधित किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो वे कंपनी रजिस्ट्रार और ट्रांसफर

एजेंट ("आरटीए") यानी एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, पता- 179-180, तृतीय तल,

हीएसआईडीसी शेंड, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज 1, नई दिल्ली-110020 फोन +91 11

41406149, 50, 51 या ई-मेल helpdeskdelhi@mcsregistrars.com पर या कंपनी की ईमेल

शेयरधारक यह भी ध्यान दें कि यह अभियान सक्रिय रूप से और विशेष रूप से शेयरधारकों तक

पहुँचने के लिए शुरू किया गया है ताकि वे अपने केवाईसी, बैंक अधिदेशों को अपडेट कर सकें।

नामांकित व्यक्ति और संपर्क जानकारी आदि का विवरण मरें और अपने अवैतनिक / अदावाकृत लामांश

बोर्ड के आदेशानुसार

ऋचा पोस्वाल

कंपनी सचिव

एफसीएस-8318

कृते जीकेएन ड्राइबलाइन (इंडिया) लिमिटेड

का दावा करें ताकि उनके शेयर और लाभांश राशि IEPFA को हस्तांतरित होने से बचा सकें।

आईडी: gdi.stakeholder@gknautomotive.com पर लिख सकते हैं।

CIN: U74999HR1985PLC034079

6वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और दूरस्थ—मतदान सूचना

लवार, 30 सितंबर, 2025 को जपराह 03:00 बजे (भारतीय मानक समय) आयोजित की जाएंगी। ताकि व्यवसायिक परिसंपत्तियों का लेन–देन सामान्य स्थान प स्यों की मौतिक उपस्थिति के बिना किया जा सके। (वीसी) / ओएपीएम धुविधा सेंट्रल क्षिपीजिटरी सर्विसेज (इविया) लिमिटेड ("सीडीएसएस") द्वारा प्रदान के ाती है। यह कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों तथा उसके तहत निर्मित नियमों के अनुपालन में है, जिसे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जा अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020, 13 जनवरी 2021, 14 दिसंबर 2021 और 5 मई 2022, 19 सितंबर 2024 के सामान्य परिपत्रों (जिन्हें सामुक्तिक रूप र मशीए परिपन्न' कहा जाता है) के साथ पदा जा सकता है। इसके अलावा, सेबी ने 12 मई 2020, 16 जनवरी 2021, 13 मई 2022 और 5 जनवरी 2023 के अप रिएजों के मध्यम से सुचीबद्ध संस्थाओं को जपनी वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक गोड (सेबी परिपत्र) में मेजने की अनुमति दी है। ररोक्त परिपन्नों के अनुवालन में और लरकार की गो—प्रीन पहलों को आगे बढ़ाने के लिए, वार्षिक आन बैठक (एऔएम) की सुचना और वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्य

वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी / एजिस्ट्रार एवं स्थानांतरण प्रतिनिधि (रजिस्ट्रार / आरटीए) / डिपॉजिटरी प्रतिसागी (डीपी) के पार कित हैं। कंपनी जन सदस्यों को एजीएन सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की एक भीतिक प्रति मेजेगी जो ca@linkeda.com पर इसके लिए अनुरोध करेंगे, जिसर उनके फोलियों नंबर / डीपी आईडी और क्लाईट आईडी भी शामिल होगा । सदस्य कुमळ ध्यान वें कि कंपनी की वित्तीय वर्ष 2026–25 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएन की सुचना की तीन प्रति कंपनी की वेबसाइट www.finkeda.com

भीर एनएसबीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com. पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। सदस्य कंवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं। इस प्रकार की भागीदारी के संबंध में विस्तृत निर्देश बैठक दुलाने की सूधना में दिए जाएँगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनिवम, 2013 की धारा 103 के अनुसार कोरम के लिए गिना

हट ऑफ तिथि और ई-वोटिंग अवधि ) कंपनी कुरकर 24 सितंबर 2025 को "कट ऑफ विधि" के रूप में डांबर रखने वाले अपने सदस्यों को आगानी एगीएम में अपने वोट का प्रयोग करने के लि

ई-वोटिंग की सुकित प्रदान कर रही है। a) कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके नियमों के प्रावधानों के अनुसार विवरण निम्नासिखित हैं:

ई-वोटिंग अवधि शनिवार 27 सितंबर 2025 को सुबह 9:00 करने शुरू होकर सोमवार 29 सितंबर 2025 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। इसके अतिरिक्त, जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, वे वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान ई—वोटिंग प्रणाली के नाप्यम से एजीएम की सुवना में उठिलक्षि प्रक्रिया का पालन करके अपना वोट ठाल सकते हैं। ई—वोटिंग की प्रक्रिया और तरीके के लिए, सदस्य कंपनी की 6वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की शुवना में

वार्षिक आम बैठक की शुचना में उल्लिखित व्यवसाय, ई-वोटिंग या वार्षिक आम बैठक में ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से किया जा सकता है। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की श्वविधा बैठक के प्रारंभ होने के निर्धारित समय 30 मिनट पहले और बाद में होगी तथा शवस्थों वे लिए पहले आओ पहले थाओं के आचार पर एपलब्ध होगी।

रादरवों कर मताधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात बुधवार 24 शितंबर 2025 को कंपनी की चुकता इकिस्टी शेयर पूजी में उनके शेयरों के अनुपात में होगा। कोई व व्यक्ति जो वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना नेजने के बाद कंपनी को सदस्या बनता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात बुधवार 24 शितंबर 2025 तक शव धारण करता है, गर helpdesk.evoting@csdlindla.com. पर अनुरोध गेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। चुकि वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बीसी /ओएबीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों द्वारा प्रोक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। जो व्यक्ति कट-ऑफ रिधि तक सदस्य नहीं है, उसे वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सुबना को केवल सुधना के उद्देश्य से ही लेना बाहिए ई-- वोटिंग और वीली / ओएवीएम के मध्यम से एजीएम में भाग तेने से संबंधित किसी भी प्रश्न या शिकायत के लिए, सदस्य सीडीएसएल, ए विंग, 25वीं मंजिर

मैराधन वयुचरएक्स, मुक्तलाल मिल कंपाजंदस, एनएम जोशी मार्ग, लोकर परेल (पुरी), मुंबई-400013, ईमेल helpdesk.evoting@cdslindia.com टोल-फ्री नंबर: 1800 21 69911 इसके अलाक, सदस्य हमारे आरटीए मंत्रितल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री मुकुल अध्याल से टेलीफो नंबर : 011.45121786 पर भी संपर्क कर सकते हैं। रिमोट ई-पोटिंग, वीसी के मान्यम से एजीएम में शामिल होने और एजीएम में ई-पोटिंग से संबंधित विवर के लिए, कृपया एजीएम की सुचना देखें। यदि आपके पास रिमोट ई-चोटिंग से संबंधित कोई प्रश्न हैं, तो कृपया https://www.evotingindia.com ग डाउनलोर्ड अनुमान में उपलब्ध शेयरबारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("FAQs") और ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुरितका देखें। कोई सदस्य रिमोट ई-दोटिंग के माध्यम से अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग से सकता है, लेकिन उसे बैठक में दोबारा

मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। यदि आपकी इंनेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरवारकों के लिए नीचे दिए गए चरनों का जलन करें जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है. . यदि आप "प्रारमिक पासवर्त्र" प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या आपको प्राप्त नहीं हुआ है या आप अपना पासवर्त मूल गए हैं: ए) www.evotingindia.com पर उपलब्ध "उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड मृत गए ?" (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने श्रीमेट खाते

बी) www.evotingindia.com पर उपलब्ध "मीतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड ?" (यदि आप मीतिक रूप में शेयर रखते हैं) विकल्प पर क्लिक करें । सी। यदि आप लपलेक्त वो विकल्पों से भी पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, सो आप www.evotingindia.com पर अपना कीमेंट खाता संख्या ∕ फो

संख्या, अपना पैन, अपना नाम और अपना पंजीकृत पता आदि बताते हुए एक अनुरोध भेज सकते हैं। हीं) सदस्य सीबीएसएल की ई-वोटिंग प्रमाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आक्षारित लीगिन का भी उपयोग कर सकते हैं। अपना पासवर्ढ दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके "नियम और शर्ती" से सहमत पर टिक करें। . अब, आपको "लॉगिन" बटन पर किलक करना होगा।

"लॉगिन" बटन पर क्लिक करे के बाद, ई-वोटिंग का होन पेज खुल जाएगा। -मेल पता / बैंक खाता अधिदेश अद्यतन करने के निर्देश

सुधना और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे रिपस्ट्रार और शेवर ट्रांसकर एजेंट के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत / अपकेट करें मैंट रुप में होवर रखने वाले सदस्य अपने संबंधित हिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क करके अपनी ईमेज आईडी पंजीकृत फरवा सकते हैं। शिली या ओएबीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सभी रोबरधारक / सदस्य, जो बोलना या प्रश्न पूछना चाहते हैं, उन्हें स्वयं को पजीकृत करना होगा औ अपने प्रश्न, यदि कोई हों, तो शुक्रवार 26 सितंबर 2025 को या उससे पहले अपने नाम, बीपी आईबी और क्लाइंट आईबी / फोलियो नंबर, पैन, मोबाइल नंबर और होयरों की संख्या के साथ कंपनी की ई-मेल आईबी यानी cs@finkeda.com पर मेजना होगा।

परोक्त जानकारी कंपनी के समी सदस्यों की जानकारी और लाम के लिए जारी की जा रही है और यह समय—समय पर जारी एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र इकेंग लिमिटेंड के लिए

एम.न: ACS-71732

# TATA

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजिनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-40013 शाखा कार्यालय : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 7वीं मंजिल, हलवासिया कॉमर्शियल हाउस, हबीबुल्लाह एस्टेट, 11 एम.जी. मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ–226001, उ.प्र.

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

(प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के तहत) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं नियम 9(1) के प्रावधानों तथा वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु 15 दिवसीय ई-नीलामी बिक्री सूचना

जनसामान्य को और विशेष रूप से निम्नलिखित कर्जदार⁄सह–कर्जदारों अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (कर्जदार) को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के पास नीचे वर्णित बंधक अचल सम्पत्ति, जिसका कब्जा टीसीएचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, कर्जदारों तथा सह-कर्जदारों से कुल राशि की वसूली हेतु ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है जैसे है'' तथा ''जो भी है वहीं है'' के आधार पर 25.09.2025 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि नीचे उल्लिखित है। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बिक्री के किसी आस्थगन/असततता की अनुपस्थिति में, आस्ति/सम्पत्ति की बिक्री ई-नीलामी द्वारा कथित 25.09.2025 को 2 बजे अप.

की जायेगी। ई-नीलामी में भाग लेने हेतु ईएमडी के डिमाण्ड ड्राफ्ट वाला मुहरबन्द लिफाफा टीसीएचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी के पास शाखा पता टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 7वीं मंजिल, हलवासिया कॉमर्शियल हाउस, हबीबुल्लाह एस्टेट, 11 एम.जी. मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ -226001, उ.प्र. पर 24.09.2025 को 5 बजे अप. तक जमा करना है।

प्रतिभृत आस्ति/अचल सम्पत्ति की बिक्री ''जहाँ है जैसे है स्थिति'' में नीचे वर्णित संक्षिप्त विवरणों के अनुसार की जायेगी

क्र स	ऋण खाता सं.	कर्जदार( रों )/सह-कर्जदार( रों ) /विधिक उत्तराधिकारी( यों ) /विधिक प्रतिनिधि/ जमानती( यों ) के नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि	आरक्षित मूल्य	तक बकाया
1.	TCHHF 0347 0001000 71955	श्री प्रेम प्रकाश जालान पुत्र श्री राम दास जालान श्री शशांक जालान पुत्र श्री प्रेम प्रकाश जालान, प्रेम प्रकाश जालान एचयूएफ अपने कर्ता के माध्यम से	₹ 1,25,42,036/- 07-06-2023	रु. 1,25,00,000/- (रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र) जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 12,50,000/- (रुपये बारह लाख पचास हजार मात्र) कब्जे का प्रकारः भौतिक	02.09.2025 तक रु. 17331277/- (रुपये एक करोड़ तिहत्तर लाख इकतीस हजार दो सौ सतहत्तर मात्र)

अचल संपत्ति का विवरणः वाणिज्यिक संपत्ति दुकान संख्या 01, 02 और 03 का समस्त भाग, पूर्णतः प्रथम तल पर (सीढ़ियों के सामान्य मार्ग के बिना), संपत्ति एम.सी. क्रमांक 92/65, कवर्ड एरिया 157 वर्ग मीटर, गौतमबुद्ध मगर, वार्ड रानी लक्ष्मी बाई, लखनऊ, तहसील एवं जिला लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में स्थित, बिक्री विलेख में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाओं के साथ पंजीकरण संख्या 4663 दिनांक 30/ 03/2013, श्री प्रेम प्रकाश जालान के नाम पर। परिसीमाः- पूर्वः- संपत्ति का शेष भाग एम.सी. नंबर 92/65/विक्रेता, पश्चिमः-अमीनाबाद रोड 20' चौड़ा, उत्तरः-लेन 5' चौड़ा, दक्षिणः-कैलाश टावर कॉम्प्लेक्स टिप्पणी: - टीसीएचएफएल के खिलाफ कर्जदार द्वारा दायर एसए (एसए/876/2023) डीआरटी लखनऊ के समक्ष लंबित है। उक्त मामले में टीसीएचएफएल के

खिलाफ कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है बोलीदाताओं को बोली जमा करने से पहले उचित परिश्रम करने की सलाह दी जाती है। नीलामी मुकदमेबाजी के नतीजे के अधीन होगी।

बिक्री में आम जनता को व्यक्तिगत रूप से निविदा जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसे किसी भी अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें इस बिक्री के सिलसिले में किसी भी प्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करना हो, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति में कोई हित अर्जित या अर्जित करने का प्रयास

यह बिक्री प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित शर्तों तथा आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी : नोट : यह ई–नीलामी बिक्री प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ पोर्टल https://auctionbazaar.com के माध्यम से 25.09.2025 को 2.00 बजे अप.

से 3.00 बजे अप. के बीच आयोजित की जायेगी। **नियम एवं शर्तें** : 1. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी गलती अथवा खामी के लिये अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो प्रतिभूत लेनदार के विवेकानसार लॉट को फिर से नीलामी पर प्रस्तत किया जायेगा। 2. आरक्षित मल्य से कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी।3. बोली वृद्धि राशि रु. 10.000/-(रुपये दस हजार मात्र) होगी। 4. सम्पत्ति के विक्रय हेतु जमा की गयी समस्त संविदाओं के साथ ऊपर लिखे के अनुसार जमा धरोहर राशि शाखा पता में देय ''टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि.'' के पक्ष में डिमाण्ड डाफ्ट के रूप में जमा करनी होगी। असफल संविदाकारों को नीलामी के पश्चात डिमाण्ड डाफ्ट वापस कर दिया जायेगा। एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी जमा करने के लिए कृपया अधिकृत प्राधिकारी से सम्पर्क करें। 5. उच्चतम संविदाकार को सफल संविदाकार घोषित कर दिया जायेगा बशर्ते कि वह संविदा के लिए वैधानिक रूप से पात्र हो और बशर्ते कि उसके द्वारा संविदा की राशि आरक्षित मृल्य से कम न हो। यदि प्रस्तावित मुल्य स्पष्ट रूप से इतना अपर्याप्त हो कि यह ऐसा करने के लिए अपरामर्शनीय हो तो 'अधिकृत प्राधिकारी' का विशेषाधिकार होगा 🛭 कि वह उच्चतम संविदा की स्वीकृति को मना कर दे। 6. कारणों को अभिलिखित करने हेतु, 'अधिकृत प्राधिकारी' विक्रय को स्थगित/अनिरन्तर करने का विशेषाधिकार रखेगा। 7. सम्पत्ति का निरीक्षण 15.09.2025 को 11 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. के बीच किया जा सकता है। 8. सफल क्रेता घोषित किये गये व्यक्ति को ऐसी उद्घोषणा के तुरन्त बाद क्रय राशि/संविदा जिसमें ईएमडी राशि शामिल है, का पच्चीस प्रतिशत 'अधिकृत प्राधिकारी' के पास 24 घंटे के भीतर जमा करना होगा और इस राशि के जमा करने में असफल रहने पर सम्पत्ति को निजी सन्धि द्वारा पुनः नीलामी/बिक्री के लिए रखा जायेगा। ९. यदि उपर्युक्त के अनुसार प्रारम्भिक राशि अदा कर दी जाती है तो क्रय राशि की शेष देय राशि क्रेता द्वारा सम्पत्ति के विक्रय की पुष्टि की तिथि के 15वें दिन को या इससे पूर्व 'अधिकृत प्राधिकारी' के पास जमा करनी होगी, यदि उस 15वें दिन रविवार या कोई अन्य अवकाश होता है तो इसे 15वें दिन के बाद पहले कार्यालयी दिन पर जमा करनी 🖡 होगी। 10. उपरोक्त अवधि में भुगतान में चूक करने पर निजी सन्धि द्वारा सम्पत्ति की फिर से नीलामी/बिक्री की जायेगी। ईएमडी सहित जमा की गई राशि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस सम्पत्ति के सभी दावों से वंचित हो जाएंगे। 11. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को सम्पत्ति के प्रति देय अधिभारों की जानकारी का विवरण शून्य, सम्पत्ति पर रखे गये दावे अथवा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य ज्ञात विवरणः शून्य। इच्छुक संविदाकार को सम्पत्ति कर, बिजली आदि के विधिक बकायों सहित सम्पत्ति पर ऋणभारों से सम्बन्धित अपनी स्वतन्त्र पूछताछ करने का परामर्श दिया जाता है। 12. अन्य विवरणों अथवा ऑनलाइन ई–नीलामी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता अन्य विवरणों अथवा ऑनलाइन ई– नीलामी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता हमारे सेवा प्रदाता आर्का इमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, 6-3-1090/1/1, द्वितीय तल, भाग बी, उमा हैदराबाद हाउस, राजभवन रोड, सोमाजीगुडा, हैदराबाद – 500082 ईमेल आईडी: contact@auctionbazaar.com, support@auctionbazaar.com अथवा मनीष बंसल से ई-मेल आईडी : Manish.Bansal@tatacapital.com अधिकृत प्राधिकारी मोबाइल नं. 8588983696 से सम्पर्क कर सकते हैं। कृपया अपनी पृछताछ व्हाट्सएप नम्बर : 9999078669 पर करें। 13. उच्चतम घोषित संविदा राशि पर 1% टीडीएस देना होगा और यह उच्चतम संविदाकार द्वारा अदा किया जायेगा। उच्चतम संविदाकार द्वारा भुगतान स्वामी/कर्जदार(रों) के पैन पर जमा करनी होगी तथा चालान की प्रति हमारी कम्पनी के पास जमा करनी होगी। 14. उपर्युक्त विवरण कृपया लिए प्रतिभृत लेनदार की वेबसाइट www.https://suri.li/kiifks में प्रावधानित लिंक देखें। 15. कृपया लिंक https://www.tatacapital.com/property-disposal.html भी देखें।

कृपया ध्यान दें - टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी भी दलाल/एजेंट को नियुक्त नहीं किया है। इच्छुक पार्टियों को इस मामले में सभी प्रश्नों और पृछताछ के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत अधिकारी से संपर्क करना चाहिए।

ह./- अधिकत प्राधिकारी स्थान : लखनऊ तिथि : 08.09.2025 टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

# विनांक: 08.09.2028

**@** GROVY

# ग्रोवी इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 122, प्रथम तल, विनोबा पुरी, लाजपत नगर - ।।, नई दिल्ली-110024, भारत । **सीआईएन**: L74130DL1985PLC021532 दूरभाष : +91 11 4674 0000, फैक्स : +91 11 4674 0030 ई-मेल: info@grovyindia.com । वेबसाईट: www.grovyindia.com

# सार्वजनिक सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्रोवी इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") की 40वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") सोमवार 29 सितंबर 2025 को अप. 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी") या अन्य ऑडियो विज्अल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ताकि कंपनी की 40वीं वार्षिक आम बैठक के आयोजन की सूचना में उल्लिखित अनुसार, व्यवसाय का संचालन किया जा सके। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") तथा उसके तहत जारी नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के सभी लागू प्रावधानों, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, उसके बाद परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई 2020, परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021 तथा परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022, परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर 2023, परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर 2024 के अनुपालन में, वीसी के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने के विस्तार के अनुपालन में तथा सेबी द्वारा जारी मास्टर परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर 2023, SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 दिनांक 03 अक्टूबर 2024, तथा एमसीए तथा सेबी द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्रों (जिन्हें आगे सामूहिक रूप से "परिपत्र" कहा जाएगा) के अनुसार, कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट शुक्रवार 05 सितंबर 2025 को उन सभी शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेज दी गई है जिनके ईमेल पते कंपनी तथा / या डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) ("डीपी") के पास पंजीकृत हैं।

1. कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 तथा लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी शेयरधारकों को एजीएम में पारित होने के लिए प्रस्तावित प्रस्तावों पर मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए रिमोट ई—वोटिंग की सुविधा प्रदान करके संतुष्ट है। सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके वोट डालने तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के साथ वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ('सीडीएसएल') द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

2. रिमोट ई—वोटिंग अवधि 26 सितंबर 2025 को प्रातः 9:00 बजे आरंभ होगी तथा 28 सितंबर 2025 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी। वार्षिक आम बैठक में ई—वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा बैठक में उपस्थित जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे वार्षिक आम बैठक में वोट कर सकेंगे।

3. वार्षिक आम बैठक में रिमोट ई-वोटिंग तथा ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि मंगलवार 23 सितंबर 2025 है। जिस व्यक्ति का नाम मंगलवार 23 सितंबर 2025 ("अंतिम तिथि") के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में प्रविष्ट है, केवल वही वार्षिक आम बैठक में रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा।

4. जिन सदस्यों ने वित्तीय वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित होने के बाद तथा अंतिम तिथि से पहले शेयर प्राप्त किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे वोट डालने हेतु यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए वार्षिक आम बैठक की सूचना देखें।

डीमैटरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों तथा जिन शेयरधारकों ने अपने ईमेल पते पंजीकृ त नहीं किए हैं, उनके लिए रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के निर्देश एजीएम बुलाने की सूचना में दिए गए हैं। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश भी एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। 6. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है, वे एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबा.

रा वोट देने का अधिकार नहीं होगा। 7. कंपनी के निदेशक मंडल ने निष्पक्ष तथा पारदर्शी विधि से मतदान प्रक्रिया के संचालन के लिए श्री अक्षित गुप्ता, एक अधिवक्ता को संवीक्षक नियुक्त किया है।

8. रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में ई–वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न या समस्या की स्थिति में, सदस्यगण (i) www.cdslindia.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध सदस्यों के लिए प्रायः पृछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्य) या ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं, या (ii) श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल,) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन प्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 से संपर्क कर सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल भेजें

9. वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.grovyindia.com पर, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, वहां पर बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध कराई गई है।

10. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों, जिन्होंने अपना ईमेल या केवाईसी विवरण अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाता में विवरण पंजीकृत/अद्यतन करें। 11. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इस बिंदू पर ध्यान दें कि सेबी के प्रावधानों के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सभी शेयरधारकों के लिए पैन, नामांकन का विकल्प, संपर्क विवरण (पिन तथा मोबाइल नंबर के साथ डाक पता), बैंक

खाता विवरण तथा उनके संबंधित फोलियो नंबर के लिए नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। 12. शेयरधारक स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ निर्धारित फॉर्म आईएसआर-1 तथा अन्य प्रासंगिक फॉर्म में उक्त विवरण पंजीकृत / अद्यतन कर सकते हैं।

13. कंपनी के निदेशक मंडल ने 4 सितंबर 2025 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए रु. 10 प्रत्येक के 13,33,62,720 इक्विटी शेयरों पर 1% की दर से अंतिम लाभांश के भुगतान को अनुमोदित तथा संस्तुत किया है, जो कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन होगा। यदि शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो अंतिम लाभांश मंगलवार 29 सितंबर 2025 को या उसके बाद उन शेयरधारकों को दिया जाएगा जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर या लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में प्रविष्ट हैं।

14. शेयरधारकों को यह भी सूचित किया जाता है कि आय कर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी द्वारा भुगतानकृत तथा वितरित लाभांश शेयरधारकों के हाथ में कर योग्य होगा। इस संबंध में सूचना कंपनी की वेबसाइट

www.grovyindia.com पर उपलब्ध है। 15. यह भी सुचित किया जाता है कि वार्षिक आम बैठक तथा लाभांश के उद्देश्यार्थ सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर हस्तांतरण एजेंट तथा कंपनी की लेखा बहियाँ बुधवार 24 सितंबर 2025 से सोमवार 29 सितंबर 2025 (दोनों दिन सिम्मिलित) तक

ग्रोवी इंडिया लिमिटेड

कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

### हिन्द सिक्योरिटीज एंड क्रेडिट्स लिमिटेड

पंजीकृत एवं कॉपीरेट कार्यालयः डी-८, पार्ट बी, उद्योग नगर, मेन रोहतक रोड, दिल्ली-110041 CIN: U74899DL 1993PLC056702 संपर्क नं: +91-9899425575 ईमेल: supersecurities 1993@gmail.com, वेबसाइट: www.supersecurities.in 32वी वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर और ई-वोटिंग की सुचना

प्रेषण की पूर्णात के संबंध में सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि हिन्द सिक्योरिटीज एंड क्रेडिट्स लिमिटेड के सदस्यों की 32वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को सुबह 10:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") या अन्य ऑडियो विजअल माध्यमो ("ओएवीएम") के माध्यम से एजीएम की सचना में बताए गए व्यवसायों को निष्पादित करने के लिए आयोजित की जाएगी। एमसीए द्वारा जारी विभिन्न परिपत्नों के अनुसार, एजीएम की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर ईमेल के माध्यम से भेजी गई है। कंपनी ने एजीएम की सुचना के साथ उपरोक्त वार्षिक रिपोर्ट को 6 सितंबर, 2025 को मेल करना पूरा कर लिया है।

जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी

पार्टिसिपेंट (डीमैट रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में) या निवस कॉर्पसर्व एलएलपी, कंपनी के रजिस्ट्रार और

शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास या supersecurities 1993@gmail.com पर कंपनी को ईमेल के माध्यम से अनुरोध भेजकर (भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में) अपने ईमेल पते पंजीकृत कराएं। एतदद्वारा सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि 32वीं एजीएम की सूचना और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.supersecurities.in) पर भी उपलब्ध है। एजीएम की सूचना नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की ई-वोटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। सदस्यों को यह भी सचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 के साथ पठित समय-समय पर संशोधित प्रासंगिक नियमों के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को 32वीं एजीएम में पारित होने वाले प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के लिए रिमोट ई-वोटिंग ( एजीएम से पहले) और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्यों को यह भी सुचित किया जाता है कि ई-वोटिंग सुविधा के लिए पात सदस्यों का निर्धारण करने के उद्देश्य से कट-ऑफ तिथि मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 तय की गई है। केवल वे व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है. रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सविधा

का लाभ उठाने के लिये हकदार होंगे। सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया शनिवार, 27 सितंबर, 2025 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे तक खुली रहेगी। इसके बाद, रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार जब किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाला जाता है, तो उसे बाद में इसे बदलने की अनुमित नहीं दी जाएगी। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान इलेक्टॉनिक रूप से अपने मतदान अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें एजीएम के दौरान दोबारा अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

कंपनी ने श्री चेतन गुप्ता (सदस्यता सं. एफसीएस-6496 और सीपी सं. 7077), प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, को निष्पक्ष और पारदशी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया है। रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया/निर्देश 32वीं एजीएम की सचना में शामिल हैं।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सदस्यों के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइटः www.evoting.nsdl.com पर अपना वोट डालने के लिए उपलब्ध है या सदस्य शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAOs) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं, जो www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध है या टोल फ्री नं.: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

ई-वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न या शिकायत सुश्री प्रियंका सेटी, कंपनी सेक्रेटरी, ईमेल पताः supersecurities 1993@gmail.com, पताः डी-8, पार्ट बी, उद्योग नगर, मेन रोहतक रोड, दिल्ली-110041, संपर्क नं.: 91-9899425575/7011493399 को भेजी जा सकती है। कोई भी व्यक्ति जो सूचना और वार्षिक रिपोर्ट भेजने के बाद सदस्य बनता है, लेकिन कट-ऑफ तिथि पर शेयर रखता है, वह वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकता है। ऐसा सदस्य रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मतदान अधिकार का प्रयोग कर सकता है और ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए आरटीए को info@nivis.co.in पर ईमेल संचार के माध्यम से कंपनी को एक प्रति के साथ वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सचना की एक प्रति के लिए अनुरोध भेज सकता है, जिसमें उसके/उसकी/उसके प्रासंगिक विवरण जैसे डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नं. शामिल हों। यदि शेयरधारक एक व्यक्तिगत शेयरधारक है और डीमैट मोड में शेयर रखता है. तो वह ई-वोटिंग के निर्देश में दिए गए विवरण के अनसार पासवर्ड जेनरेट कर सकता है। चुंकि उपरोक्त परिपत्नों के अनुसार 32वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसिलए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

यह भी सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार, 32वीं एजीएम के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स बुधवार, 24 सितंबर, 2025 से मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 (दोनों दिन मिलाकर) तक बंद रहेंगे।

> निदेशक मंडल के आदेश से हिन्द सिक्योरिटीज एंड क्रेडिट्स लिमिटेड के लिए (प्रियंका सेठी)

> > कंपनी सेक्रेटरी

सदस्यता सं.: A32756

दिनांक: 6 सितंबर, 2025

स्थानः दिल्ली

# यूनिवसेंस फोटो इमेजिंग्स लिमिटेड

सीआईएन: L22222UP2011PLC103611 पंजीकृत कार्यालायः 19 के. एम. हापुढ़ बुलन्दशहर रोड, पी. ओ. मुलावठी, जिला बुलन्दशहर उत्तर प्रदेश 245408 मारत

कॉर्षोरेट कार्यालयः प्लॉट नंबर 87, इंस्टीटयूशनल एरिया, सेक्टर-32, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 टेलीफोन नंबर: 0124-6925100, ईमेल आईडी: cs\_uphoto@universusphotoimagings.com; वेबसाइटः www.universusphotoimagings.com

### 14वीं वार्षिक आम बैठक का नोटिस खाता बंदी एवं ई-वोटिंग की सूचना

लदहारा सुचित किया जाता है कि **यूनिवर्सेस फोटो इमेजिंग्स लिमिटेड** की 14वीं वार्षिक आम वैठक, कंपनी अधिनियम 2013 **("अधिनियम")** के लागू प्रावधानों और नियमों के अनुपालन में, 14वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट और उसके तहत निर्मित नियमों के अनुरूप साधारण और विशेष व्यवसायों का संचालन करने के लिए मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को प्रातः 11:30 बजे होटल नटराज, काला आम, दिल्ली रोड, सिविल लाइन्स, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश 203 001 पर आयोजित की

अधिनियम की घारा 101 और 136 के प्रावधान और इसके तहत निर्मित नियमों के अनुसरण में. सेबी सुचीबद्धता विनिधमों के विनियमन 36 और एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के संदर्भ में, 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 14वीं एजीएम की सूचना 08 सितंबर, 2025 को इलेक्ट्रॉनिक मोंड के माध्यम से उन सदस्यों को ई–मेल द्वारा भेजी जा रही है जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ

सदस्यगण ध्यान दें कि वार्षिक रिपोर्ट 2025-25 के साथ 14वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट <u>https://www.universusphotoimagings.com/investors.html</u> स्टॉक एक्सबेंजों की वेबसाइटों यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सबेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com पर, और कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिन टेक') की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/ पर भी उपलब्ध

जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिमागियों के मध्यम से डिपॉजिटरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में और कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिनटेक') सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर ३१ और ३२ विलीय जिला, नानकरामगुढा सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद, तेलंगाना-500032 को लिखकर भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में पंजीकरण कर

कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 108 के सहपटित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के अनुसार, यधासंशोधित, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 44 और इंस्टीटयूट ऑफ कंपनी सेक्रेंटरीज ऑफ इंडिया द्वारा सामान्य बैठकों पर जारी सचिवीय मानक-2 के अनुसार, कंपनी अपने शेयरधारकों को नोटिस में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर 14वीं एजीएम के आयोजन स्थल पर रिमोट ई--वोटिंग और वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की सुविधा प्रदान कर रही है जिसकी विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना के निर्देश भाग में प्रदान की गई है।

भौतिक या डीमैटेरियलाइज़्ड रूप में शेयर धारक सदस्य, कट ऑफ तिथि अर्थात मंगलवार 23 सितंबर, 2025 तक सूचना में निर्दिष्ट प्रस्ताव के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक मोड से रिमोट ई-वोटिंग या वोटिंग बैलेट / मतपत्र के माध्यम से अपने वोट डाल सकते हैं।

सुचीबद्ध कंपनियाँ द्वारा प्रदान की गई ई—वोटिंग सुविधा पर सेबी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी / सीआईआर / पी / 2020 / 242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसरण में, सभी व्यक्तिगत डीमैट खाताघारकों को उनके डीमैट खातों / डिपॉजिटरी / डीपी की वेबसाइटों के माध्यम से एकल लॉगिन क्रेडेशियल के माध्यम से ई-वोटिंग प्रक्रिया प्रदान की गई है। वोटिंग प्रक्रिया की कार्यकुशलता बदाने के लिए, इसकी विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना के निर्देश भाग में प्रदान की जा रही है।

रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा शनिवार, 27 सितंबर 2025 (प्रात: 9:00 बजे) से शुरू होकर सोमवार, 29 सितंबर 2024 (सांयः 5:00 बजे) तक जारी रहेगी, कथित अवधि की समाप्ति के बाद केफिन द्वारा इसे तुरंत अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार जब सदस्य रिमोट ई—वोटिंग के मध्यम से अपना वोट बाल देगा, तो उसे बाद में अपने वोट को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्य रेमोट ई–योटिंग सुविधा के माध्यम से अपना बोट डालने के बाद भी 14वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन वे 14वीं एजीएम के दौरान दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

वे सदस्य, जो 14वीं एजीएम में उपस्थित हैं लेकिन उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं गया है, वे 14वीं एजीएम के दौरान बैलेट / मतपत्र के माध्यम से वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।

किसी मामले में यदि कोई व्यक्ति 14वीं एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद, लेकिन ई-वीटिंग के लिए कट ऑफ तिथि यानी मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 से पहले कंपनी का सदस्य बन गया है, ऐसे सदस्य सुचना के निर्देश भाग में दिए गए तरीके से अनुरोध भेजकर युजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर

इस सूचना में उहिलखित सभी दस्तावेज और उनके भौतिक तथ्यों और वैधानिक रजिस्टरों को निर्धारित करने वाले व्याख्यात्मक विवरण कंपनी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे और सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे cs\_uphoto@universusphotoimagings.com पर ईमेल भेजकर प्रासंगिक दस्तावेजों की

मांग के लिए अनुरोध कर सकते हैं। 14वीं एजीएम में रिमीट ई-वोटिंग या बैलेट / मतपन्न के माध्यम से वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न / शिकायत के मामले में, सदस्य https://e-voting.kfintech.com (केफिनटेक वेबसाइट) पर डाजनलोड अनुभाग में उपलब्ध सहायता और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ लेने के लिए संपर्क करें या डी सुरेश बाबू, वरिष्ठ प्रबंधक, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेंब, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, फाइनेंशियल ढिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल हैदराबाद 500-032 से संपर्क कर सकते हैं या

einward.ris@kfintech.com पर एक ईमेल भेज दें या 1800 3094 001 पर कॉल करें। कंपनी का आईएसआईएन INE03V001013 है। सभी सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि कृपया अपने शेयरों को डीमैटरियलाइज करवा लें।

कंपनी ने श्री दीपक क्करेजा (एफसीएस-4140), प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (सीपी सं. 8265) और उनकी विफलता की रिथति में श्रीमती मोनिका कोहली (एफसीएस 5480), प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (सीपी सं. 4936), दोनों मैसर्स डीएमके एसोसिएट्स, कंपनी सेकेटरीज, नई दिल्ली में भागीदार हैं, को कंपनी की वार्षिक आम बैठक में निष्पक्ष और पास्दर्शी तरीकें से वोटिंग प्रक्रिया का संचालन करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

कंपनी कें सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बहियां आगामी वार्षिक आम बैठक के संबंध

में मंगलवार, 23 सितंबर 2025 से सोमवार, 30 सितंबर 2025 (दोनों दिन शामिल) तक निदेशक मंडल के आदेश द्वारा कृते यूनिवर्सेस फोटो इमेजिंग्स लिमिटेड

हस्ता/-सुरेश कुमार

स्थानः गुरुगाम दिनांकः 07 सितंबर 2025

खाता बंदीः

बंद रहेंगी।

कंपनी सचिव और अनुपालनें अधिकारी एसीएसः 41503

epaper.jansatta.com

स्थान : नई दिल्ली

**दिनाँक**: 07 सितंबर, 2025

या 1800 22 55 33 पर कॉल करें।